



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 चैत्र, 1940 (श०)

संख्या- 365 राँची, बुधवार, 28 मार्च, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

26 दिसम्बर, 2017

संख्या-13/न्या० उ० न्या० वाद-07/2015 का० 12558-- माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा एल०पी०ए० संख्या 466/2015 मोसर्तत जिया तारा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक 25 जुलाई, 2016 को पारित आदेश के द्वारा श्री चंचल कुमार प्रतिवादी सं०- 5 की सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति रद्द कर दी गयी है तथा उक्त आदेश के विरुद्ध दायर एस०एल०पी० (सी०) संख्या 24947/2016 चंचल कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, एस०एल०पी० (सी०) संख्या 34222/2016 झारखण्ड राज्य बनाम मोसर्तत जिया तारा

एवं अन्य तथा एस०एल०पी० (सी०) संख्या 25357/2016 झारखण्ड लोक सेवा आयोग बनाम मोसर्त जिया तारा एवं अन्य दिनांक 28 नवम्बर, 2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के द्वारा खारिज कर दिया गया है । फलतः श्री चंचल कुमार, सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-प्रशिक्षु, कोडरमा की सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-प्रशिक्षु के पद पर की गयी नियुक्ति रद्द की जाती है तथा उन्हें यह अधिसूचना उन्हें तामिल किये जाने की तिथि अथवा दिनांक 31 दिसम्बर, 2017, जो भी पहले हो, से सेवामुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अखौरी शशांक सिन्हा,
सरकार के उप सचिव ।
